

VTL/CS/21-22

16 SEPT 2021

BSE Ltd.  
Corporate Relationship Department  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building  
P.J.Towers, Dalal Street,  
Fort,  
**MUMBAI-400 001**

The Manager,  
Listing Department,  
The National Stock Exchange of India Ltd,  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E),  
**MUMBAI-400 051**

**Company's Scrip Code: 517015**

**Company's Scrip Code: VINDHYATEL**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper advertisement pursuant to  
Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and  
Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

In pursuance to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the Newspaper advertisement regarding Addendum to the Notice of 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company published on 16<sup>th</sup> September, 2021 in one English newspaper namely 'Financial Express' having country-wide circulation and in one Hindi newspaper having wide circulation in the Rewa district wherein registered office of the Company is situated i.e. 'Dainik Jagran'.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
**For Vindhya Telelinks Limited**



**(Dinesh Kapoor)  
Company Secretary**



Encl: As above

# Brent tops \$75 after drawdown in US stocks

JESSICA RESNICK-AULT  
New York, September 15

**OIL PRICES ROSE** over \$2 a barrel on Wednesday after government data showed a larger-than-expected drawdown in US crude inventories, and on expectations demand will rise as vaccination roll-outs widen.

US crude oil stockpiles fell last week to the lowest since September 2019, the US Energy Information Administration said, extending their drawdown after Hurricane Ida's hit late August shut numerous refineries and offshore drilling production.

Brent crude rose \$2.12, or 2.9%, to \$75.72 a barrel by 11:14 a.m. ET (1514 GMT), while US West Texas Intermediate (WTI) crude climbed \$2.28, or 3.3%, to \$72.75 a barrel.

Earlier in the session, Brent touched \$76.13 a barrel, a contract high, and the highest outright price since late July.

US crude and distillate inventories last week fell more than analysts expected, while gasoline stocks also declined, but fell slightly short of analysts' expectations.

Crude inventories fell by 6.4 million barrels in the week to Sept. 10 to 417.4 million barrels, compared with analysts' expectations in a Reuters poll for a 3.5 million-barrel drop.

"We have seen large crude and product draws which is supportive to the energy com-



## ON THE RISE

■ Brent crude rose \$2.12 to \$75.72 a barrel by 1514 GMT, while US West Texas Intermediate crude climbed \$2.28 to \$72.75 a barrel

■ Oil prices also found support from the IEA, which said vaccine roll-outs would power a rebound

plex," said Tony Headrick, energy market analyst at CHS Hedging. "The tropical storm that just came through slowed down recovery efforts from Hurricane Ida and we will continue to see the effects from Ida for the next few reports."

Tropical Storm Nicholas moved slowly through the Gulf

Coast on Tuesday, leaving hundreds of thousands of homes and businesses without power, although Texas refineries ran normally.

Damage from the storm comes two weeks after Ida knocked a significant amount of Gulf Coast refining capacity offline.

"This year's hurricane season has a much greater and longer-lasting impact on the global oil balance than in previous years," said Tamas Varga, oil analyst at London brokerage PVM Oil Associates.

Oil prices also found support from the International Energy Agency, which said on Tuesday vaccine roll-outs would power a rebound, after a three-month slide in global oil demand due to the spread of the Delta coronavirus variant and renewed pandemic restrictions. —REUTERS

# INTERVIEW: AHAMMED MP, chairman, Malabar Gold & Diamonds 'During pandemic, gold consolidated its safe haven status'

*Kozhikode-based Malabar Gold and Diamond is one of the largest gold jewellery retailers and manufacturers in India with 260 showrooms in India and the Middle East. The retailer is planning to invest ₹1,600 crore in FY22 for expansion. Ahammed MP, chairman, Malabar Gold & Diamonds, talks to Rajesh Ravi about the impact of Covid-19 and future plans of the company. Edited excerpts:*

**Malabar Gold has listed its international investment arm on the Nasdaq Dubai Private Market. Is this an indication of anything big in the global market?**

The listing on the Nasdaq Dubai will offer our 300 plus shareholders from international operations the opportunity to trade their shares easily on approval of the board. Our international arm, Malabar Investments Plc, is now registered with Dubai International Financial Cen-

ter and it gives complete transparency and ease of doing investments.

**Are the footfalls back to normal in your stores across India?**

As the economy is reviving, the consumer sentiment and demand are witnessing significant improvement. Footfalls are gradually increasing in all our stores across the country. Our latest 'Brides of India' campaign has also witnessed strong traction in the consumer space. Ahead of the festive and wedding seasons, things are looking positive.

**What is your outlook regarding total sales in this fiscal year given that the pandemic impacted the first quarter?**

Overall, retail sales were affected in the first quarter of this fiscal due to subdued consumer sentiment and restricted timing of opera-



tions. Sales were especially impacted between the last week of April and May. However, gradual unlocking has improved sales in the following months. We are looking at a robust festive season if there is no further escalation in the infection rate.

**Do you expect the consumption of gold jewellery to increase in the coming quarters?**

During the pandemic phase, gold has strengthened its safe haven status. As a

result, the demand outlook remains strong. Thanks to mandatory hallmarking, people are looking at gold as a dependable investment instrument. Hence, we are expecting growth in the consumption of gold jewellery in the coming quarters.

**What is the short-term and long-term outlook on gold prices and their impact?**

We don't want to speculate on the gold price movement. We have recently launched 'One India One Gold Rate', which offers a uniform gold rate without coming promising on purity. It gives an opportunity to consumers to buy 100% BIS hallmark and responsible sourced gold at fair price. Through 'One India One Gold Rate', we aim to develop transparency in the trade, thus putting the consumers' interest first.

**Are you witnessing a shift in the preference of the young-**

sters? New-age youngsters prefer to buy jewellery that has life beyond the locker. They prefer to buy wearable jewellery and complement their individuality. They are open for experiments.

**Malabar Gold's future plans?**

We will further strengthen our presence by opening 56 stores globally with 40 across India and 16 internationally in FY22. For that, we'll be investing ₹1,600 crore and the expansion drive will generate 1,750 new jobs. In India, we'll strengthen our presence in states like Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal and Odisha. Globally, our new target markets are the UK, Canada, Egypt, Bangladesh in addition to expansion in the existing markets of the US, the UAE, Malaysia, Singapore, Bahrain, Oman and Qatar.

**CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA**  
NAAC Accredited 'A' Grade University  
MAHENDERGARH - 123031 (HARYANA)

Advt.No.: 3/NTR/2021 Date: 15.09.2021

**EMPLOYMENT NOTICE**

Online applications are invited from the eligible candidates for appointment to post of **Controller of Examinations**. Online Application Form and other related details are available on the University's Website [www.cuh.ac.in](http://www.cuh.ac.in). Any further information in this regard shall be uploaded on the University's website only. The last date for submission of online application is **14.10.2021, 05:00 PM**.

**REGISTRAR**

**CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED**  
CIN NO: L99999MH1937PLC002641  
Registered Office: 6<sup>th</sup> Floor, CG House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030  
Tel No.: 022-2423 7777, Fax No.: 022-2423 7733  
E-mail: [investorservices@cgglobal.com](mailto:investorservices@cgglobal.com), Website: [www.cgglobal.com](http://www.cgglobal.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue of duplicate certificate(s):

Folio No.	Name of the Shareholder	Certificate No.	Distinctive No. From	Distinctive No. To	No. of Shares
0011181	Maureen R Pinto Joint Holder 1 - Edith H D Lima	000901450	368186760	368187546	787
0024623	Sumir Kumar Ahluwalia	000898760	366452524	366452563	40

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities in any way. Any person(s) who has/have any claim in regard to the above mentioned securities, should lodge such claim with the Company at the registered address mentioned above or the Company's Registrar and Share Transfer Agents viz. Datamatics Business Solutions Limited, Plot No B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai 400 093- within 15 days from the date of publication of this notice, failing which the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) in respect of the aforesaid securities.

The Company shall not be liable to anyone for any loss suffered by or any claims arising out of the issue of duplicate share certificates for the above said equity shares.

**For CG Power and Industrial Solutions Limited**  
P Varadarajan  
Company Secretary and Compliance Officer  
Place: Mumbai  
Date: 15<sup>th</sup> September, 2021

**THE MAHARASHTRA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD., MUMBAI**  
(Incorporating The Vidarbha Co-op Bank Ltd.)  
(Scheduled Bank)

Head Office: Sir Vithaldas Thackersey Smruti Bhavan, 9, Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 001, Post Box No. 472, Tel Nos. 91-022-22800747, 707122876015 to 20 Website: <https://mscbank.com>

**TENDER NOTICE FOR LEASE**

The secured properties of the Cooperative Organisation/Institutions are attached by the MSC Bank as per provisions of **SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI Act, 2002)**.

Bank invites the bids with packed envelop for "lease out" the properties of **10 SSK & 1 SSG Unit**

- Gangapur SSK Ltd., Raghunathnagar, Tal-Gangapur, Dist-Aurangabad,
- Vinayak SSK Ltd., Vajjapur, Dist-Aurangabad, 3) S.P.Nilangekar SSK Ltd., Ambulga, Dist-Latur, 4) Gajanan SSK Ltd., Sonajinagar, Tal-Dist-Beed,
- Mahesh (Kada) SSK Ltd., Kada, Dist-Beed 6) Panzarakan SSK Ltd., Bhadne, Tal. Sakri, Dist. Dhule, 7) Jay Jawan Jay Kisan SSK Ltd., Nalegaon, Tal-Chakur, Dist-Latur, 8) Yashwant SSK Ltd., Yashwantnagar, Tal-Theur, Dist-Pune, 9) Sw.Bapuraoji Deshmukh SSK Ltd., Vela, Tal.Hinganghat, Dist.Wardha, 10) Jai Kisan SSK Ltd., Bodegaon, Tal. Darvha, Dist. Yavatmal, 11) Sahakar Maharsi Dattajirao Kadam Sahakari Soot Gimi Ltd., Kaulage, Tal-Gadhinglaj, Dist-Kolhapur.

The detailed terms & conditions, guidelines and further details are available on Bank's official Website: <https://mscbank.com> from 16.09.2021 onwards.

Sr. No.	Details	Date
1	Buy/download Tender Document	16.09.2021 to 23.09.2021
2	Inspection of the Property	20.09.2021 to 21.09.2021 (by 10.00 a.m. to 5.00 p.m.)
3	Submission of Tender	23.09.2021 (by 5.00 p.m.)
4	Bid Opening Date	24.09.2021 For Sr.No.1 11.00 a.m., Sr.No.2 11.30 a.m., Sr.No.3 12.00 p.m., Sr.No.4 12.30 p.m., Sr.No.5 1.00 p.m., Sr.No.6 02.00 p.m., Sr.No.7 02.30 p.m., Sr.No.8 03.00 p.m., Sr.No.9 03.30 p.m., Sr.No.10 04.00 p.m., Sr.No.11 04.30 p.m.,

SD/-  
(Dr. Ajit Deshmukh)  
Date: 16/09/2021 Managing Director & Authorised Officer  
Place: Mumbai The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., Mumbai

**MP BIRLA GROUP**

**UNIVERSAL CABLES LIMITED**  
CIN: L31300MP1945PLC001114  
Registered Office: P.O. Birla Vikas, Satna - 485 005 (M.P.), India  
Phone: (07672) 414000, 257121-27 • Fax: (07672) 257129, 257131  
E-mail: [headoffice@unistar.co.in](mailto:headoffice@unistar.co.in) • Website: [www.unistar.co.in](http://www.unistar.co.in)

**ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 76<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

The Notice of the 76<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Thursday, the 23<sup>rd</sup> September, 2021 at 4.30 P.M. at the Registered Office of the Company at P.O. Birla Vikas, Satna-485 005 (M.P.) has already been circulated to the members of the Company.

Subsequently, the Company received two Notice(s) under Section 160 of the Companies Act, 2013 ("the Act") from a member, The Punjab Produce & Trading Co. Pvt. Ltd. signifying candidature(s) of Dr. Dhanpat Ram Agarwal (DIN:00322861) for the office of Director of the Company and Justice Shyamal Kanti Chakrabarti (Retired) (DIN:08953661) for the office of Director of the Company in place of Justice Dilip Ganesh Kamik (Retired) (DIN: 06419513), Director retiring by rotation at the forthcoming 76<sup>th</sup> AGM of the Company and being eligible, offered himself for re-appointment as per Item No. 3 of Ordinary Business of the Notice of 76<sup>th</sup> AGM. Accordingly, the proposals for the appointment of Dr. Dhanpat Ram Agarwal and Justice Shyamal Kanti Chakrabarti (Retired) shall be additional special business as Item Nos. 5 & 6, to be transacted alongwith other business items as mentioned in the Notice of AGM dated 29<sup>th</sup> June, 2021 at the 76<sup>th</sup> AGM of the Company.

Upon perusal of the said Notices and after careful evaluation of the candidature(s) of Dr. Dhanpat Ram Agarwal and Justice Shyamal Kanti Chakrabarti (Retired), the Nomination and Remuneration Committee as well as Board of Directors of the Company in their respective meeting(s) held on 9<sup>th</sup> September, 2021 **have strongly recommended "against" the appointment of Dr. Dhanpat Ram Agarwal for the office of a Director of the Company and Justice Shyamal Kanti Chakrabarti (Retired) for the office of a Director of the Company in place of Justice Dilip Ganesh Kamik (Retired), Director retiring by rotation at the forthcoming AGM of the Company, as proposed by The Punjab Produce & Trading Co. Pvt. Ltd. vide its Notices dated 13<sup>th</sup> August, 2021 and 6<sup>th</sup> September, 2021, pursuant to Section 160 of the Act.**

The Addendum to the Notice of the 76<sup>th</sup> AGM has already been circulated to the Members of the Company which is also available on the website of the Company at [www.unistar.co.in](http://www.unistar.co.in) under 'Investor Relation' Section.

**Attention of the shareholders is specifically drawn to the explanatory statement annexed to the Addendum to the Notice of 76<sup>th</sup> AGM to explain the background of these proposals and the stand of Nomination and Remuneration Committee as well as Board of Directors of the Company thereon.**

Thus, the members are requested to take note of it and cast their vote either by Remote e-Voting or at the AGM.

By the Order of the Board of Directors  
For Universal Cables Limited  
(Sudeep Jain)  
Company Secretary

Date: 15<sup>th</sup> September, 2021  
Place: Satna

**MP BIRLA GROUP**

**BIRLA CABLE LIMITED**  
CIN: L31300MP1992PLC007190  
Registered Office: Udyog Vihar, P.O. Chhorhata, Rewa-486 006 (M.P.), India  
Phone: (07662) 400580 • Fax: (07662) 400680  
Email: [headoffice@birlacable.com](mailto:headoffice@birlacable.com) • Website: [www.birlacable.com](http://www.birlacable.com)

**ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 29<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

The Notice of the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Thursday, the 23<sup>rd</sup> September, 2021 at 10.00 A.M. at the Registered Office of the Company at Udyog Vihar, P.O. Chhorhata, Rewa - 486 006 (M.P.) has already been circulated to the members of the Company.

Subsequently, the Company received two Notice(s) under Section 160 of the Companies Act, 2013 ("the Act") from a member, The Punjab Produce & Trading Co. Pvt. Ltd. signifying candidature(s) of Dr. Dhanpat Ram Agarwal (DIN:00322861) for the office of Director of the Company and Shri Satish Pradhan (DIN: 00175969) for the office of Director of the Company in place of Shri Harsh V. Lodha (DIN: 00394094), Director retiring by rotation at the forthcoming 29<sup>th</sup> AGM of the Company and being eligible, offered himself for re-appointment as per Item No. 3 of Ordinary Business of the Notice of 29<sup>th</sup> AGM. Accordingly, the proposals for the appointment of Dr. Dhanpat Ram Agarwal and Shri Satish Pradhan shall be additional special business as Item Nos. 5 & 6, to be transacted alongwith other business items as mentioned in the Notice of AGM dated 18<sup>th</sup> June, 2021 at the 29<sup>th</sup> AGM of the Company.

Upon perusal of the said Notices and after careful evaluation of the candidature(s) of Dr. Dhanpat Ram Agarwal and Shri Satish Pradhan, the Nomination and Remuneration Committee as well as Board of Directors of the Company in their respective meeting(s) held on 9<sup>th</sup> September, 2021 **have strongly recommended "against" the appointment of Dr. Dhanpat Ram Agarwal for the office of a Director of the Company and Shri Satish Pradhan for the office of a Director of the Company in place of Shri Harsh V. Lodha, Director retiring by rotation at the forthcoming AGM of the Company, as proposed by The Punjab Produce & Trading Co. Pvt. Ltd. vide its Notices dated 13<sup>th</sup> August, 2021 and 6<sup>th</sup> September, 2021, pursuant to Section 160 of the Act.**

The Addendum to the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM has already been circulated to the Members of the Company which is also available on the website of the Company at [www.birlacable.com](http://www.birlacable.com) under 'Investor Relation' Section.

**Attention of the shareholders is specifically drawn to the explanatory statement annexed to the Addendum to the Notice of 29<sup>th</sup> AGM to explain the background of these proposals and the stand of Nomination and Remuneration Committee as well as Board of Directors of the Company thereon.**

Thus, the members are requested to take note of it and cast their vote either by Remote e-Voting or at the AGM.

By the Order of the Board of Directors  
For Birla Cable Limited  
Somesh Laddha  
Company Secretary

Date: 15<sup>th</sup> September, 2021  
Place: Rewa

**MP BIRLA GROUP**

**VINDHYA TELELINKS LIMITED**  
CIN: L31300MP1983PLC002134  
Registered Office: Udyog Vihar, P.O. Chhorhata, Rewa - 486 006 (M.P.), India  
Phone: (07662) 400400 • Fax: (07662) 400591  
Email: [headoffice@vtirewa.com](mailto:headoffice@vtirewa.com) • Website: [www.vtirewa.com](http://www.vtirewa.com)

**ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 38<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

The Notice of the 38<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Thursday, the 23<sup>rd</sup> September, 2021 at 11.30 A.M. at the Registered Office of the Company at Udyog Vihar, P.O. Chhorhata, Rewa - 486 006 (M.P.) has already been circulated to the members of the Company.

Subsequently, the Company received two Notice(s) under Section 160 of the Companies Act, 2013 ("the Act") from a member, The Punjab Produce & Trading Co. Pvt. Ltd. signifying candidature(s) of Dr. Dhanpat Ram Agarwal (DIN:00322861) for the office of Director of the Company and Justice Shyamal Kanti Chakrabarti (Retired) (DIN:08953661) for the office of Director of the Company in place of Justice Dilip Ganesh Kamik (Retired) (DIN: 06419513), Director retiring by rotation at the forthcoming 38<sup>th</sup> AGM of the Company and being eligible, offered himself for re-appointment as per Item No. 3 of Ordinary Business of the Notice of 38<sup>th</sup> AGM. Accordingly, the proposals for the appointment of Dr. Dhanpat Ram Agarwal and Justice Shyamal Kanti Chakrabarti (Retired) shall be additional special business as Item Nos. 5 & 6, to be transacted alongwith other business items as mentioned in the Notice of AGM dated 29<sup>th</sup> June, 2021 at the 38<sup>th</sup> AGM of the Company.

Upon perusal of the said Notices and after careful evaluation of the candidature(s) of Dr. Dhanpat Ram Agarwal and Justice Shyamal Kanti Chakrabarti (Retired), the Nomination and Remuneration Committee as well as Board of Directors of the Company in their respective meeting(s) held on 9<sup>th</sup> September, 2021 **have strongly recommended "against" the appointment of Dr. Dhanpat Ram Agarwal for the office of a Director of the Company and Justice Shyamal Kanti Chakrabarti (Retired) for the office of a Director of the Company in place of Justice Dilip Ganesh Kamik (Retired), Director retiring by rotation at the forthcoming AGM of the Company, as proposed by The Punjab Produce & Trading Co. Pvt. Ltd. vide its Notices dated 13<sup>th</sup> August, 2021 and 6<sup>th</sup> September, 2021, pursuant to Section 160 of the Act.**

The Addendum to the Notice of the 38<sup>th</sup> AGM has already been circulated to the Members of the Company which is also available on the website of the Company at [www.vtirewa.com](http://www.vtirewa.com) under 'Investor Relation' Section.

**Attention of the shareholders is specifically drawn to the explanatory statement annexed to the Addendum to the Notice of 38<sup>th</sup> AGM to explain the background of these proposals and the stand of Nomination and Remuneration Committee as well as Board of Directors of the Company thereon.**

Thus, the members are requested to take note of it and cast their vote either by Remote e-Voting or at the AGM.

By the Order of the Board of Directors  
For Vindhya Teletelinks Limited  
Dinesh Kapoor  
Company Secretary

Date: 15<sup>th</sup> September, 2021  
Place: Rewa

**MP BIRLA GROUP**

**ICICI Prudential Asset Management Company Limited**  
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

**Registered Office:** 12<sup>th</sup> Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.  
**Corporate Office:** One BKC, 13<sup>th</sup> Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.  
Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: [www.iciciprpfm.com](http://www.iciciprpfm.com), Email id: [enquiry@iciciprpfm.com](mailto:enquiry@iciciprpfm.com)

**Central Service Office:** 2<sup>nd</sup> Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

**Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Equity & Debt Fund (the Scheme)**

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum capital withdrawal option (IDCW option) of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on September 21, 2021\*:

Name of the Scheme/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) <sup>§#</sup>	NAV as on September 14, 2021 (₹ Per unit)
<b>ICICI Prudential Equity &amp; Debt Fund</b>		
Annual IDCW	0.75	19.34
Direct Plan - Annual IDCW	0.75	20.44

§ The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Scheme.

# Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

\* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

**It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).**

**For ICICI Prudential Asset Management Company Limited**  
Place: Mumbai  
Date: September 15, 2021  
No. 009/09/2021  
Sd/-  
Authorised Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit [www.iciciprpfm.com](http://www.iciciprpfm.com)

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.iciciprpfm.com> or visit AMFI's website <https://www.amfiindia.com>

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

